



भू स्वास्थ्य चूर्ण

ई. प्रदीप चन्द्र जैन के द्वारा आविष्कृत

भारत सरकार द्वारा पेटेन्ट संख्या 202381

निर्माता: भू हर्बल इन्डस्ट्रीज, कटरा बाजी राव, मीरजापुर(उ०प्र०)
उदर जनित नये-पुराने रोगों से छुटकारा दिलाने में सन् 1980 से सतत् कामयाब



सेवन करने की विधि

1 भू चम्मच (1/2 ग्राम) नास्ता / भोजन के 5 मिनट पूर्व तथा बाद पानी पीने के बाद चूस कर सेवन करें 2 भू चम्मच(1 ग्राम) सुबह खाली पेट व शाम को कुनकुने गरम पानी में।

(चूर्ण खाने के बाद पानी न पियें)

- | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|
| ► गैस | ► एसीडिटी | ► कब्ज | ► दस्त | ► आँव |
| ► अपच | ► भूख की कमी | ► मुँह की दुर्गन्ध | ► मुँह के छाले | |
| ► पेट से आँतों तक के छाले | | ► मुहांसे | ► खूनी बवासीर | |
| ► बादी बवासीर में आराम | | ► खून की कमी | ► लीवर की कमजोरी | |
| ► नियमित सेवन से | | ► माइग्रेन सिरदर्द | ► कमजोरियों को दूर करता है | |
| ► शक्ति देता है | | ► रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। | | |
| ► गठिया व जोड़ों का दर्द में आराम हर्बल या आर्थों तेल के साथ | | | | |

वजन कम करने के लिए प्रतिदिन 1 घन्टा ठहलना आवश्यक है।

- दिन भर के काम के बाद शाम की थकान व सिर दर्द को शांत करता है ◀
- डायरिया (लूज मोसन) ठीक होता है। (10-10 मिनट पर 5-6 बार में) ◀
- लू लगने पर व ऊमस में एक गिलास सिक्की (नीबू, नमक व चीनी मिला कर) बना कर उसमें 2 मापक भू स्वास्थ्य चूर्ण डाल कर अच्छे से मिला कर 30-30 मिनट पर 3-4 बार पीने से लू का असर खत्म होता है ◀
- बच्चों के लिए टानिक (शारीरिक व बुद्धि विकास में सहायक) ◀

कमर, जोड़ों, गठिया के दर्द में आराम के लिए

भू स्वास्थ्य चूर्ण उपरोक्त विधि के साथ हर्बल तेल या आर्थों तेल दिन में 2 बार सुबह नहाने के बाद व रात में सोने के पहले दीढ़ की हड्डी, कमर, पैर व जोड़ों, दूसरे सुजन वाले अंगों पर तथा साँस लेने में तकलीफ में पसली पर भी मालिस करें तथा एक बूँद नाभी पर भी रखें।

प्रतिदिन 1/2 घन्टा ठहलना आवश्यक है।

सम्पर्क करें :-

ई. प्रदीप चन्द्र जैन

09839226316

ई. युवराज चन्द्र जैन

9412371023

ઝૂહાર્ટ, આર્થો, ખારસ્થ્ય કેન્દ્ર

આયુષ (આયુ એવં હોમ્યો દવા) કેન્દ્ર (ભૂ હર્બલ ઇન્ડસ્ટ્રીજ કી સહાયક)

બાજીરાવ કટરા, મીરજાપુર (તુલાના)

- હાઈ બ્લડ પ્રેસર
- લકવા (પદ્ધતિશીળ)
- હાર્ટ કી કમજોરી
- શુગર (મધુમેહ)
- લીવર કે બીમારિયાં
- ગૈસ, એસીડિટી
- ખૂની બવાસીર
- બચ્ચેદાની (ગર્ભાશય) કી કમજોરી વ ગાঁઠ
- લો બ્લડ પ્રેસર
- ગઠિયા, સાયટિકા
- આર્ટિલરી બ્લાકેજ
- આર્થરાઇટિસ
- કિડની કી બીમારિયાં
- કબ્જ, દર્દ
- બાદી બવાસીર

નિઃશુલ્ક પરામર્શ

નબ્જ, બ્લડ પ્રેસર વ શુગર કી જાંચ

સુબહ:-10:30 બજે સે 1:30 બજે, સાયં:-5 બજે સે 8 બજે

- હાર્ટ અટૈક મેં આરામ માત્ર ૪ ધંટે મેં, ◀
- લકવા (પદ્ધતિશીળ) મેં આરામ માત્ર ૨૪ સે ૪૮ ધંટો મે ◀
- આર્ટિલરી બ્લાકેજ એવં લકવા (પદ્ધતિશીળ) કે મરીજોં કે લિએ ખારસ્થ્ય કેન્દ્ર મેં ભર્તી વ ઇલાજ કી સુવિધા ઉપલબ્ધ હૈ। ◀

ઈ. પ્રદીપ ચન્દ જૈન મો- 9839226316

ઈ. યુવરાજ ચન્દ જૈન મો- 9412371023